

**वित्त मंत्रालय**  
**लोक उद्यम विभाग**  
**जनवरी, 2023 माह हेतु डीपीई के संबंध में मासिक उपलब्धियां**

**1. कैपेक्स लक्ष्य:**

जनवरी, 2023 माह तक के चुनिंदा सीपीएसईज़ (100 करोड़ रूपए और उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य के साथ) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और उसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 06 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 6.62 लाख करोड़ रुपये (लगभग) के अनुमानित व्यय की तुलना में, उपलब्धि 5.06 लाख करोड़ रुपये अर्थात् दिनांक 31.01.2023 तक लगभग 76.42% है।

**2. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम:**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सीईओ, सचिव, डीपीई की अध्यक्षता में और एसीसी द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित गैर-सरकारी व्यक्तियों की सदस्यता वाली खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) के गठन के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी की सूचना दे दी है। एससीएससी का गठन राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के बोर्ड में सीईओ, अध्यक्ष, दो अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों और तीन अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों के चयन के लिए किया गया है, जिसे सीपीएसईज़ और अन्य सरकारी एजेंसियों की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।

इस संबंध में, दिनांक 18.01.2023 को कैबिनेट सचिवालय को एससीएससी संबंधी एक एजेंडा नोट भेजा गया है, जिसमें एससीएससी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कैबिनेट सचिव की सुविधाजनक तारीख और समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ताकि एनएलएमसी के निदेशक मंडल को भरने के लिए शर्तों, प्रक्रिया और विज्ञापन-सह-आवेदन को अंतिम रूप दिया जा सके।

**3. सीपीएसईज़ का संचालन:**

- i. बीईएल ऑप्टोनिक् डिवाइसेज लिमिटेड को अनुसूची 'घ' सीपीएसई के रूप में प्रारंभिक वर्गीकरण और प्रबंध निदेशक के पद के सृजन के प्रस्ताव पर डीपीई में विचार किया गया था और इसे विचार के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) को भेजा गया था।
- ii. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में पुन वर्गीकृत करने के प्रस्ताव पर डीपीई में विचार किया गया था और इसे अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया था।
- iii. दिनांक 31.03.2024 तक डीपीई ने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के 30 पदों को तत्काल समामेलन के नियम से छूट देने पर सहमति व्यक्त की।

**4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):**

डीपीई ने सीपीएसईज़ की सीएसआर गतिविधियों के लिए एक तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

**5. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 107 सीपीएसईज़ के संबंध में समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया था। 107 में से, 86 सीपीएसईज़ के संबंध में एमओयू मूल्यांकन को ऑनलाइन डैश बोर्ड के माध्यम से जनवरी, 2023 तक अंतिम रूप दिया गया है। इन सीपीएसईज़ के लिए एमओयू मूल्यांकन रिपोर्ट और एमओयू स्कोर भी ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से जारी किया गया है। 86 सीपीएसईज़ की समझौता ज्ञापन रेटिंग का सारांश नीचे दिया गया है:

वर्ष	सीपीएसईज़ की गिनती					
	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	खराब	कुल
2021-22	20	29	19	8	10	86

#### 6. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट्स:

- डीपीई ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा परिचालित मसौदा कैबिनेट नोट पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
- टिप्पणियों के लिए प्राप्त अन्य विभागों के दो मसौदा कैबिनेट/सीसीईए नोटों की जांच की गई और वित्त मंत्रालय की समेकित टिप्पणियों पर माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग को टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।
- आरवीएनएल लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 18 जनवरी, 2023 को अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक आयोजित की गई थी।
- जनवरी, 2023 के दौरान आईएमजी/सीजीडी की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

#### 7. वेतन संशोधन और वेतन अधिसूचना:

आईडीए पैटर्न वेतनमान 2017, 2007, 1997 और 1987 और 1992 का पालन करते हुए सीपीएसईज़ में गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए दिनांक 01.01.2023 से देय महंगाई भत्ता दरों को दिनांक 04.01.2023 के डीपीई के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अधिसूचित किया गया था।

#### 8. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:

- डीपीई ने माह के दौरान तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के 151 कार्यकारियों ने भाग लिया।
- डीपीई ने सीपीएसईज़ के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों से सरकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के सहयोग से गोवा में दिनांक 12-13 जनवरी, 2023 को दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों के 35 सरकारी नामित निदेशकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

#### 9. सीपीएसईज़ द्वारा जीईएम और एमएसएमई के माध्यम से खरीद से संबंधित मामले:

- डीपीई यह सुनिश्चित करने के लिए सीपीएसई के साथ काम कर रहा है कि सीपीएसईज़ एमएसई से खरीद से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करें और जीईएम पोर्टल के माध्यम से अपनी खरीद बढ़ाएं। एमएसई के लिए सरकार द्वारा घोषित समर्थन उपायों के अनुरूप, वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद अनिवार्य 25% की तुलना में लगभग 32% थी। वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान, एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद बढ़कर 35.59% हो गई है।
- हितधारकों के साथ डीपीई द्वारा निरंतर जुड़ाव ने जीईएम से सीपीएसई द्वारा खरीद में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित की है, जो वर्ष 2020-21 में 7,035 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 45,970 करोड़ रुपये हो गई है। वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान, जीईएम के माध्यम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद बढ़कर 55,618 करोड़ रुपये हो गई है।

#### 10. मिशन भर्ती:

डीपीई सीपीएसईज़ के संबंध में "मिशन भर्ती" की प्रगति की निगरानी करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक भर्ती के लिए सीपीएसईज़ के कुल 21440 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है।

\*\*\*\*\*